



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित]

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 352]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 1977 कार्तिक 13, 1899

No. 352]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 1977/KARTIKA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 4th November 1977

**G.S.R. 678(E).**—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Combined Tablets of Iron and Folic Acid and Liquid Preparations thereon, falling under item No. 14E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, subject to the conditions that—

- (1) Such Tablets or Preparations do not bear either on themselves or on their containers or both the brand name, that is, the name or the registered trade mark under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958) or any other mark such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to such Tablets or Preparations for the purpose of indicating or so as to indicate a connection in the course of trade between such Tablets or Preparations and some person having the right either as proprietor or otherwise to use the name or mark with or without any indication of the identity of that person;

- (ii) the manufacturer furnishes to the proper officer a certificate from an officer authorised by the Ministry of Health and Family Welfare within a period of ninety days or such extended period as the proper officer may allow, from the date of clearance of such Tablets or preparations, showing that they are intended exclusively for supply to the Ministry of Health and Family Welfare or any other organisation as may be authorised by that Ministry or both for distribution free of cost under the National Family Welfare Programme.

2. The exemption granted under this Notification, shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1978

[No 312/77]

N. RAJA Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1977

सार का नि० 678(घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक, अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14-ड० के अन्तर्गत सम्मिलित लोह एवं कोलिक अम्ल मिश्रित टिकियों को और उनकी द्रव विनिमित्तियों का, उन पर उद्योगीय सम्बन्ध उत्पाद-शुल्क से, निम्नलिखित शर्तों पर छूट देती है, अर्थात् :—

- (i) उन टिकियों या विनिमित्तियों पर या उनके आधारों पर या दोनों पर उनका ब्राण्ड-नाम अर्थात् व्यापार और पण्यवस्तु चिह्न अधिनियम 1958 (1958 का 43) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पण्य चिह्न या नाम या कोई अन्य चिह्न, जैसे कोई प्रतीक, नाम चिह्न (मोनोग्राम), लेबिल, हस्ताक्षर या कोई ऐसे अविच्छिन्न शब्द या लिखावट नहीं लगे होंगे जो ऐसी वाणिज्य के अनुक्रम में ऐसी टिकिया या विनिमिति और किसी ऐसे व्यक्ति, जो स्वत्वधारी के रूप में या अन्यथा उसकी पहचान दर्शाने के लिए या उसके बिना नाम या चिह्न के उपयोग का अधिकारी के बीच सम्बन्ध उपदर्शित कराने के प्रयोजन लिए हो या उससे ऐसा सम्बन्ध उपदर्शित होता हो;
- (ii) विनिर्माता, उचित अधिकारी को, ऐसी टिकियों या विनिमित्तियों की निकासी को तारोख से नब्बे दिनों के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उचित अधिकारी अनुज्ञात करे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें ये दर्शित किया गया हो कि उनका प्रदाय केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या उस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य संगठन को या दोनों को, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन मुफ्त वितरण के लिए आशयित है।

2. इस अधिसूचना के अधीन अनुज्ञात छूट 31 मार्च, 1978 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[मं० 312/77]

एम० राजा, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

